

मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा प्रयासरत "मार्गदर्शन केन्द्र" स्थापित करने के सम्बन्ध में प्रेस-वार्ता

भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा घोषित "स्टार्ट-अप इंडिया" से प्रेरित होकर मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश में एक "मार्गदर्शन केंद्र" स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। इस सम्बन्ध में मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश आज दिनांक 07 अप्रैल, 2016 को सायं 05:00 बजे एक प्रेस-वार्ता का आयोजन किया गया। उक्त प्रेस-कांफ्रेंस का मुख्य-उद्देश्य शहर के नवउद्यमियों को मार्गदर्शित कराना था जिससे वह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की शुरुआत कर सकें।

"मार्गदर्शन केंद्र" उत्तर प्रदेश के नवउद्यमियों को जो उद्योग लगाने की इच्छा रखते हैं, उनको निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान करने के लिए तत्पर है तथा उनकी समस्याओं के निवारण हेतु प्रयत्नशील होगा। तथा इस केंद्र का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण आवश्यक होगा। पंजीकरण प्रक्रिया को निम्न प्रकार से कराया जा सकता है:

- मर्चेट्स चैम्बर चैम्बर की Website <http://www.merchantschamberup.com/index.php> के होम पेज पर उपलब्ध contact us कॉलम से, अथवा
- मर्चेट्स चैम्बर की आधिकारिक Email-id:// merchantschamberup@gmail.com से, अथवा
- Manually (मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उ0प्र0 के कार्यालय में उपलब्ध Format से)

मर्चेट्स चैम्बर में पंजीकृत व्यक्तियों को समय अनुसार आमंत्रित करेगा तथा उनकी आवश्यकताओं का विवरण संगृहीत करेगा। इसके पश्चात चैम्बर "मार्गदर्शन-केन्द्र" के पैनल के समक्ष रखेगा तथा आवश्यकता अनुसार एक-एक व्यक्ति का साक्षात्कार करेगा तथा उनको सलाह देगा।

मार्गदर्शन के पैनल में निम्नलिखित अनुभवी, राज्य तथा केन्द्रीय विभागों से सम्बंधित सलाहकार हैं, जो निम्न प्रकार से मार्गदर्शित करेंगे:

- एम0एस0एम0ई-डी0आई0 कानपुर, नवउद्यमियों को केन्द्र राज्य द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं एवं उनके क्रियान्वन के बारे में जानकारी देंगे।
- वित्तीय एवं कर-परामर्शदाता/ सलाहकार द्वारा विभागीय अनुपालन एवं पंजीकरण की जानकारी देंगे।

- बैंक के अधिकारीगण निधियों की मांग एवं लॉन की प्रक्रिया की बारे में बतायेंगे।
- नवउद्यमियों को उनके उद्यम लगाने के लिए सफल उद्योगों के प्रतिनिधिगण भी उपस्थित रहेंगे।
- विपणन सहायता योजना (Marketing Assistance Scheme) से अवगत करानी के लिए विपणन अनुभवी भी उपस्थित रहेंगे।

- FIEO (Federation of Indian Export) के प्रतिनिधि उपस्थित होंगे जो नव उद्यमियों को निर्यात की प्रक्रियाओं एवं विपणन की अवसरों से अवगत करायेंगे।
- सलाहकारों/परामर्शदाताओं द्वारा नवउद्यमियों को उनके परियोजनाओं (Projects) की साध्यता (feasibility) की जाँच, परियोजनाओं को मूल्यांकित करने एवं उनके निधियों को कैसे और कहां निवेश करना है, के बारे में भी बताया जाएगा।
- नवउद्यमियों के निधियों को कैसे और कहाँ निवेश करना है, का मूल्यांकन भी “मार्गदर्शन-केन्द्र” द्वारा किया जाएगा।
- नवउद्यमियों के उद्यम को सफलतापूर्वक स्थापित करने एवं प्रत्येक योजना के क्रियान्वन हेतु योजना संयोजक (Project Coordinator) उनको सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।
- इस तरह के नवउद्यमियों को मार्गदर्शित करने के लिए “मार्गदर्शन-केन्द्र” समय-समय पर उपलब्ध रहेगा।

मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा उपरोक्त लिखित सेवाएँ निशुल्क प्रदान की जायेंगी।

प्रेस-वार्ता में उपस्थित गणमान्य:

श्री ए0के0 सिन्हा, सचिव मर्चेट्स चैम्बर ऑफ ऊ.प्र., डॉ0 आई0एम0रोहतगी, अध्यक्ष, श्री पदम् कुमार जैन, उपाध्यक्ष, मर्चेट्स चैम्बर ऑफ ऊ.प्र., श्री संजीव चावला, एम0एस0एम0ई0- डी0आई0, कानपुर, श्री आर0के0 कपूर, लीड बैंक मनेजर, बैंक ऑफ बड़ोदा, श्री आर0 केसरवानी, एनएसआईसी, कानपुर, श्री प्रेम मनोहर गुप्ता, श्री मुकुल टंडन, श्री शुशील शर्मा, श्री अतुल कनोडिया, श्री मनीष कुमार, आन्धा बैंक, श्री दीपक, कुमार, आन्धा बैंक, श्री वाई0एस0 गर्ग, सी0ई0ओ, फियो-कानपुर चैप्टर, अलोक श्रीवास्तव, फियो कानपुर के प्रतिनिधि, श्री आर0 के0प्रकाश, उपनिदेशक, एम0एस0एम0ई0, कानपुर

सधन्यवाद

मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश